

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800 001
Office of The Principal Accountant General
(Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna - 800 001
Telephone: 0612- 2221226,
Email: agaubihar@cag.gov.in



सं०-प्रशा०-1(ले०प०)/CAG letters/25-26/ग- 4
26-27

दिनांक 06.04.2026

कार्यालय आदेश/ Office Order

विषय : Circulation of Unverified/Forged Electronic Information through Social Media and Informal Channels-reg.

मुख्यालय कार्यालय से प्राप्त पत्र संख्या 221-Staff (Appt.III)/163-2024 दिनांक 17-03-2026 के माध्यम से जारी परिपत्र संख्या 13/Staff/2026 के संदर्भ में इस कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त पत्र का अवलोकन करें तथा उसमें निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

With reference to Circular No. 13/Staff/2026 issued vide letter No. 221-Staff (Appt.III)/163-2024 dated 17-03-2026 received from Headquarters Office, all officers and staff of this office are directed to refer to the said letter and ensure compliance with the instructions contained therein.

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निर्गत किया जाता है।
This issues with the approval of the competent authority.

हो/—

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना ।
2. सभी वरिष्ठ उप महालेखाकार/ उप महालेखाकार/निदेशक का सचिवालय ।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सभी नियंत्रि अनुभाग ।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए०एम०एस० अनुभाग- आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. सूचना पट्ट ।

Digitally signed by
Diwakar Ray
Date: 06-04-2026
15:20:02

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124
OFFICE OF THE
COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA
9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110124

दिनांक / DATE 17-03-2026

To

All HoDs (as per mailing list)


Subject: Circulation of Unverified / Forged Electronic Information through Social Media and Informal Channels - reg.

Sir/ Madam,

It has come to the notice that certain unverified and misleading information, including purported official communications, is being circulated through informal channels and social media platforms by some officials.

2. In this regard, it is stated that any information, circular, order, or instruction shall be treated as authentic only when issued through official channels of communication or duly verified from the competent authority concerned. Employees are strictly advised not to create, circulate, forward, or rely upon any such unverified information through messaging applications, email groups, or social media platforms.
3. The Competent Authority has taken a serious view of such activities as circulation of forged or misleading electronic documents may lead to unnecessary confusion among staff and may also attract legal and disciplinary consequences.
4. Officials are hereby reminded that creation or circulation of forged electronic records or misleading information may attract provisions of the Information Technology Act, 2000. Further, such acts shall also be treated as misconduct under the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.
5. Circulation of fabricated or misleading electronic communications purporting to be official documents will be viewed as serious misconduct, and strict disciplinary action under applicable service rules, in addition to legal action under relevant provisions of law, may be initiated against the individuals involved.
6. All Heads of Departments are requested to bring the contents of this circular to the notice of all officials under their control and ensure strict compliance.

Yours faithfully,


(Sumeet Kumar)

Asst. Comptroller and Auditor General